



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

# बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1936 (श०)

(सं० पटना 25७) पटना, वृहस्पतिवार, 5 फरवरी 2015

वाणिज्य—कर विभाग

अधिसूचनाएं

4 फरवरी 2015

एस०ओ० 16, दिनांक 5 फरवरी 2015—केन्द्रीय बिक्री—कर (बिहार) नियमावली, 1957 के नियम-९सी के उप—नियम(13) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निर्बंधित व्यवसायी को निर्गत प्रपत्र 'एफ' को अवैध घोषित करते हुए रद्द किया जाता है एवं सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है—

1.	सर्वश्री Nesle India Ltd. Patna. TIN(VAT)-10050123053, TIN(CST)-10050123150	क्रमांक BG/F-276804 से BG/F- 276806 (कुल तीन पन्ना)
2.	प्रपत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम।	वाणिज्य—कर उपायुक्त, पाटलीपुत्र अंचल, पटना।
3.	प्रपत्र रद्द करने का कारण	घोषणा प्रपत्रों का खो जाना।
4.	प्रपत्र रद्द करने का उद्देश्य	दुरुरूपयोग की रोकथाम।
5.	प्रपत्र के अमान्य होने की तिथि	वाणिज्य—कर कार्यालय द्वारा निर्गमन की तिथि से।

(सं० बिक्री—कर / रद्द—०९ / २०१४—५१९)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
डा० ई०एल०एस०एन० बाला प्रसाद,  
वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

4 फरवरी 2015

एस०ओ० 17, एस०ओ० 16, दिनांक 5 फरवरी 2015 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के आदेश से प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं० बिक्री—कर / रद्द—०९ / २०१४—५२०)

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
डा० ई०एल०एस०एन० बाला प्रसाद,  
वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—सचिव।

*The 4th February 2015*

S.O. 16, dated the 5th February 2015—In exercise of the power conferred by the sub-rule (13) of Rule 9C of the Central Sales Tax (Bihar) Rules, 1957, the declaration form “F” issued to the following registered dealer are being cancelled and declared invalid and hereby published for general information—

**Particulars of the Declaration Forms**

1.	M/s. Nesle India Ltd. Patna. TIN (VAT)-10050123053 TIN (CST)-10050123150	Sl. No.- BG/F-276804 to BG/F-276806 (Total Three Forms)
2.	Designation of the officer who issued the form	Deputy Commissioner of Commercial Taxes, Patliputra Circle, Patna.
3.	Reason for cancellation of form	Due to Loss of Form.
4.	Purpose for cancellation of forms	Prevention of misuse.
5.	Date from which declared invalid	From the date of issue by the Commercial Taxes office.

(No. Bikari-kar/Radd-09/2014-519)

By order of the Governor of Bihar,

DR. E.L.S.N. BALA PRASAD,

*Commissioner-cum-Secretary,*

*Commercial Taxes Department.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) २५७-५७१+५०-३०८०८०१

Website: <http://egazette.bih.nic.in>